

प्रेस नोट

दिनांक 11.09.2021

थाना खुर्जानगर पुलिस एवं द्वारा मिलावटी घी बनाते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से 16 लीटर मिलावटी घी, 30 लीटर अधबना घी व मिलावटी घी बनाने के उपकरण आदि बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री संग्राम सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जानगर श्री दीक्षित कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 10.09.2021 को थाना खुर्जानगर पुलिस क्षेत्र में तलाश वांछित एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 01 व्यक्ति किला मेवई माता मन्दिर के पास गन्दे नाले के किनारे अनिल गिरी पुत्र राधे गिरी के किराये के कमरे में मिलावटी देशी घी बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर किला मेवई माता मन्दिर के पास गन्दे नाले के किनारे अनिल गिरी पुत्र राधे गिरी के मकान से मिलावटी घी बनाते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की तथा मौके से 16 लीटर घी, 30 लीटर अधबना घी व मिलावटी घी बनाने के उपकरण आदि बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. मनोज कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी शिव कॉलोनी, खुर्जा जंक्शन थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 16 लीटर मिलावटी घी व 30 लीटर अधबना घी, आधा लीटर रिफाइंड व आधा लीटर डालडा
2. घी बनाने के उपकरण-02 एल्युमिनियम के भगोने, 01 गैस सिलेन्डर, 01 चूल्हा लोहे का मय पाईप व रेगुलेटर, 01 प्लास्टिक का ड्रम, 250 मिली लीटर, 1000 मिली लीटर, 05 लीटर के मापक व कुंछा।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसके पास देसी घी बनाने का लाइसेंस है उसी की आड़ में दूध की क्रीम में वनस्पति घी (डालडा) व रिफाइंड मिलाकर नकली घी बनाता है जिसको देशी घी के रूप में बेच देता है जिससे उसे अच्छा मुनाफा हो जाता है। इस सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी मौके पर आ गए जिनके द्वारा बोटल में मिलावटी घी का परीक्षण हेतु बतौर नमूना लिया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर मुअसं-1022/2021 धारा 272,273 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री दीक्षित कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर
- 2- उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह
- 3- का0 हितेश कुमार, का0 नीतेश कुमार